

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 403] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 29, 1973/अग्रहायण 8, 1895

No. 403] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 29, 1973/AGRAHAYANA 8, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

### NOTIFICATION

*New Delhi, the 29th November 1972*

**S.O. 717 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the International Airports Authority of India (Conditions of Service of the Chairman and other whole-time Members) Rules, 1973.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of February, 1972.

2. **Salary.**—(1) The salary payable to the Chairman shall be in the pay scale of Rs. 3000-125-3500 per month.

(2) The salary payable to every other whole-time member shall be in the pay scale of Rs. 2500-100-3000 per month, or such other pay scale as may be determined by the Central Government at the time of the appointment of each whole-time member.

3. **Residential Accommodation.**—The Chairman and every other whole-time member shall be entitled to unfurnished accommodation on deduction of 10% of the salary subject to the ceiling on the monthly rental for such accommodation to be regulated in accordance with the instructions issued by the Central Government in this behalf from time to time, or to draw such house rent allowance as is admissible to the highest category of officers in the whole-time employment of the Authority

4. **Free use of car.**—The use of the car of the Authority by the Chairman or every other whole-time member, for private purposes, shall be regulated in accordance with the instructions issued by the Central Government in this behalf from time to time.

5. **Travelling allowance, joining time and joining time pay.**—The Chairman and every other whole-time member shall be entitled to such travelling allowance, joining time and joining time pay while proceeding to join duty their initial appointment and on reversion therefrom as are admissible to the highest category of officers in the whole-time employment of the Authority.

6. **Travelling and daily allowance for journeys on tour.**—(1) The Chairman and every other whole-time member shall be entitled to draw such travelling allowance on tour as is admissible to the highest category of officers in the whole-time employment of the Authority.

(2) The Chairman and every other whole-time member shall be entitled to draw such daily allowance for journeys on tour as is admissible to the highest category of officers in the whole-time employment of the Authority.

7. **Other allowances and conditions of service.**—The other allowance and conditions of service of the Chairmen and every other whole-time member shall be such as may be determined by the Central Government at the time of their appointment.

Provided that as respects any matter which is not so specifically determined by the Central Government, the regulations applicable in that behalf to the highest category of officers in the whole-time employment of the Authority shall apply to the Chairman and every other whole-time member.

## CHAPTER 2

### MISCELLANEOUS

### MEMORANDUM

The Chairman and a whole-time member have been appointed with effect from 1-2-1972 and 1-10-1972 respectively but as several formalities have to be gone through, these rules could not be notified earlier. Accordingly, retrospective effect has been given to these rules. It is confirmed that no one is adversely affected thereby.

[No. AV-24011/5/72-AA]

N. KHOSLA, Jt. Secy.

## पर्यटन और नगर विमानन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1973

का० आ० 717(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकारी अधिनियम, 1971 (1971 का 43) की धारा 36 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकारी (अध्यक्ष तथा अन्य पूर्णकालिक सदस्यों की सेवा शर्तें) नियम, 1973 है।

(2) ये नियम पहली फरवरी, 1972 से लागू माने जाएंगे।

2. **वेतन.**—(1) अध्यक्ष को देय वेतन 3000-125-3500 रुपये प्रति मास के वेतनमान में होगा।

(2) प्रत्येक अन्य पूर्णकालिक सदस्य को देय वेतन 2500-100-3000 रुपये प्रतिमास के वेतनमान में अथवा किसी अन्य ऐसे वेतनमान में होगा जो प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति के समय केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए।

3. **आवास गृह.**—अध्यक्ष तथा अन्य प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य वेतन के 10 प्रतिशत की कटौती पर, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार इस प्रकार के आवास स्थान का नियमन करने के लिए निर्धारित मासिक किराये की सीमा से अधिक नहीं होगी, असज्जित आवास गृह के हकदार होंगे, अथवा प्राधिकरण में पूर्णकालिक उच्चतम वर्ग के अधिकारियों को जितना मकान किराया भत्ता अनुज्ञेय हो उतना ही वे भी लेने के हकदार होंगे।

4. **कार का निःशुल्क प्रयोग.**—अध्यक्ष अथवा सभी अन्य पूर्णकालिक सदस्यों द्वारा गैर-सरकारी प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण की कार के प्रयोग का विनियमन केन्द्र सरकार द्वारा इस विषय में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

5. **यात्रा भत्ता, कार्यग्रहण अवधि तथा कार्यग्रहण अवधि वेतन.**—अध्यक्ष तथा अन्य सभी पूर्णकालिक सदस्य अपनी प्रारंभिक नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने अथवा उससे प्रत्यावर्तन के अद्वार पर उसी यात्रा भत्ते, कार्यग्रहण अवधि तथा कार्यग्रहण अवधि वेतन के हकदार होंगे जो कि प्राधिकरण की पूर्णकालिक सेवा में उच्चतम वर्ग के अधिकारियों के लिए अनुज्ञेय हो।

6. **दौरे पर यात्राओं के लिए यात्रा तथा दैनिक भत्ता.**—(1) अध्यक्ष तथा अन्य सभी पूर्णकालिक सदस्य दौरे के लिए ऐसे यात्रा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जो प्राधिकरण की पूर्णकालिक सेवा में उच्चतम वर्ग के अधिकारियों के लिए अनुज्ञेय हो।

(2) अध्यक्ष तथा अन्य सभी पूर्णकालिक सदस्य दौरे के समय की गयी यात्राओं के लिए उसी दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जो कि प्राधिकरण की पूर्णकालिक सेवा के उच्चतम वर्ग के अधिकारियों के लिए अनुज्ञेय हो।

7. **अन्य भत्ते तथा सेवा शर्तें.**—अध्यक्ष तथा अन्य सभी पूर्णकालिक सदस्यों के अन्य भत्ते तथा सेवा की शर्तें वैसी ही होंगी जैसी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति के समय अवधारित की जाएं परन्तु ऐसी किसी बात के बारे में जिस के बारे में केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार विनिर्दिष्ट: अवधारित नहीं किया है, वही विनियम अध्यक्ष तथा अन्य सभी पूर्णकालिक सदस्यों पर लागू होंगे जो कि प्राधिकरण की पूर्णकालिक सेवा के उच्चतम वर्ग के अधिकारियों को लागू होंगे।

## अध्याय 2

### विविध

#### ज्ञापन

अध्यक्ष तथा एक पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति क्रमशः 1-2-1972 तथा 1-10-1972 से की जा चुकी है, परन्तु क्योंकि बहुत सी औपचारिकताओं को पूरा किया जाना था, अतः ये नियम पहले अधिसूचित नहीं किये जा सके। तदनुसार, इन नियमों का भूतलक्षी प्रभाव होगा। इस बात की पुष्टि की जाती है कि इन नियमों से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

[सं० ए० बी०-24011/5/72-ए०ए०]

नवजीवन खोसला, संयुक्त सचिव।

